



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 6]

नई दिल्ली, जनवरी 30—फरवरी 5, 2005 शनिवार/माघ 10—माघ 16, 1926

No. 6]

NEW DELHI, JANUARY 30—FEBRUARY 5, 2005 SATURDAY/MAGHA 10—MAGHA 16, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)
General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2004

सांकांनि० 38.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची के आदेश 27 के नियम 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध सिविल अधिकारिता के किसी न्यायालय में वादों में वादपत्रों और लिखित कथनों पर या रिट कार्यवाही में हस्ताक्षर करने और उनका सत्यापन करने से संबंधित भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग की अधिसूचना सं० सांकांनि० 167 तारीख 14 फरवरी, 1990 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, "प्रकीर्ण" शीर्षक के अधीन, यद "I. गृह मंत्रालय में महानिदेशालय में, सीमा सुरक्षा बल" में, "उप महानिरीक्षक" प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"अपर महानिदेशक

अपर उप महानिरीक्षक।"

[पत्र० सं० 16(1)/2004-न्या०]

डी०आर० मीना, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

टिप्पण:—मूल अधिसूचनाएं अधिसूचना सं० सांकांनि०

167 द्वारा तारीख 14-2-90 को प्रकाशित की गई थीं और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गई हैं:—

1. सांकांनि० सं० 662 तारीख 10-10-1990;
2. सांकांनि० सं० 301 तारीख 24-04-1991;
3. सांकांनि० सं० 557 तारीख 16-09-1991;
4. सांकांनि० सं० 18 तारीख 16-12-1991;
5. सांकांनि० सं० 332 तारीख 14-07-1992;
6. सांकांनि० सं० 230 तारीख 27-04-1993;
7. सांकांनि० सं० 511 तारीख 28-10-1992;
8. सांकांनि० सं० 231 तारीख 27-04-1993;
9. सांकांनि० सं० 396 तारीख 19-07-1993;
10. सांकांनि० सं० 471 तारीख 01-09-1994;
11. सांकांनि० सं० 256 तारीख 08-05-1995;
12. सांकांनि० सं० 147 तारीख 08-03-1996;
13. सांकांनि० सं० 268 तारीख 12-06-1996;

14. सांका०नि० सं० 146 तारीख 20-02-1997;
15. सांका०नि० सं० 362 तारीख 22-02-1997;
16. सांका०नि० सं० 211 तारीख 11-06-1999;
17. सांका०नि० सं० 193 तारीख 20-03-2001 और
18. सांका०नि० सं० 319 तारीख 05-08-2002

15. GSR No. 362 dated 22-02-1997;
16. GSR No. 211 dated 11-06-1999;
17. GSR No. 193 dated 20-03-2001 and
18. GSR No. 319 dated 05-08-2002

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2005

सा.का.नि. 39.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राइफल्स ग्रुप (मुख्य लेखा अधिकारी और ज्येष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi the 10th November, 2004

G.S.R. 38.—In exercise of the powers conferred by rule 1 of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notifications of the Government of India in the Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs number G.S.R. 167 dated 14th February, 1990 relating to the signing and verification of plaints and written statements in suits in any court of civil jurisdiction or in writ proceeding by or against the Central Government, namely :—

In the Schedule to the said notification under the heading "MISCELLANEOUS", in item "I. Directorate General, Border Security Force in the Ministry of Home Affairs", after the entry "Deputy Inspector General", the following entries shall be inserted, namely :—

"Additional Director General

Additional Deputy Inspector General."

[F. No. 16(1)/2004-Judl.]

D. R. MEENA, Jt. Secy. and Legal Adviser

Note : The principal notification was published on 14-02-1990 vide notification No. G. S. R. 167 and subsequently amended vide:—

1. GSR No. 662 dated 10-10-1990;
2. GSR No. 301 dated 24-04-1991;
3. GSR No. 557 dated 16-09-1991;
4. GSR No. 18 dated 16-12-1991;
5. GSR No. 332 dated 14-07-1992;
6. GSR No. 230 dated 27-04-1993;
7. GSR No. 511 dated 28-10-1992;
8. GSR No. 231 dated 27-04-1993;
9. GSR No. 396 dated 19-07-1993;
10. GSR No. 471 dated 01-09-1994;
11. GSR No. 256 dated 08-05-1995;
12. GSR No. 147 dated 08-03-1996;
13. GSR No. 268 dated 12-06-1996;
14. GSR No. 146 dated 20-02-1997;

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स ग्रुप (मुख्य लेखा अधिकारी और ज्येष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2005 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. असम राइफल्स ग्रुप (मुख्य लेखा अधिकारी और ज्येष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2002 में :—
 - (i) नियम (1) के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स (मुख्य लेखा अधिकारी और ज्येष्ठ लेखा अधिकारी) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2003 है।
 - (ii) अनुसूची में, मुख्य लेखा अधिकारी/ज्येष्ठ लेखा अधिकारी के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने, पदों की संख्या से संबंधित स्तंभ 2 के अधीन,—“(2002)” कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “(2003)” कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

[फा० सं० आई-45028/33/94-कार्मिक-III]

मनोज अग्रवाल, निदेशक (कार्मिक)

पाद टिप्पण—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं० सांका०नि० 75 तारीख 5 फरवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 31st January, 2005

G.S.R. 39.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Assam Rifles Group (Chief Accounts Officer and Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Assam Rifles Group (Chief Accounts Officer and Senior Accounts Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 2005.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Assam Rifles Group (Chief Accounts Officer and Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 2002,—

- (i) in rule (1), for sub rule (1), the following sub-rules shall be substituted, namely :—
“(1) These rules may be called Assam Rifles (Chief Accounts Officer and Senior Accounts Officer) ‘Group A posts’ Recruitment Rules, 2003.”
- (ii) in the Schedule, against serial number 1, relating to the post of Chief Accounts Officer and Senior Accounts Officer under column 2, relating to ‘Number of posts’, for the brackets and figures “(2002)”, the brackets and figures “(2003)” shall be substituted.

[F. No. I-45028/33/94-Pers. III]

MANOJ AGGARWAL, Director (Personnel)

Foot note—The principle rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Section (i) vide GSR 75, dated the 5th February, 2003.

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2005

सा.का.नि. 40.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राइफलस रेंज मुख्यालय (कनिष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफलस (लेखा अधिकारी, अपर लेखा अधिकारी, अभिलेख अधिकारी और सिविलियन राजपत्रित अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. असम राइफलस रेंज मुख्यालय (कनिष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2002 में :—

- (i) नियम (1) के उपनियम (1) में “असम राइफलस रेंज (कनिष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2002” के स्थान पर “असम राइफलस (लेखा अधिकारी, अपर लेखा अधिकारी, अभिलेख अधिकारी और सिविलियन राजपत्रित अधिकारी) भर्ती नियम, 2003” रखा जाएगा।
- (ii) अनुसूची में, लेखा अधिकारी/अपर लेखा अधिकारी/अभिलेख अधिकारी और सिविलियन राजपत्रित अधिकारी पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने, पदों की संख्या से संबंधित स्तंभ 2 के अधीन, “(2002)” कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “(2003)” कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. आई-45028/33/94-कार्मिक-III]

मनोज अग्रवाल, निदेशक (कार्मिक)

पाद टिप्पण—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं० सा.का.नि. 76 तारीख 5 फरवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 31st January, 2005

G.S.R. 40.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Assam Rifles (Accounts Officer Additional Account Officer, Record Officer and Civilian Gazetted Officer) Recruitment Rules, 2002, namely :—

1. (1) The rules may be called the Assam Rifles (Accounts Officer Additional Account Officer, Record Officer and Civilian Gazetted Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Assam Rifles (Accounts Officer Additional Account Officer, Record Officer and Civilian Gazetted Officer) Recruitment Rules, 2002,—

- (i) in rule (1), for sub rule (1), for the figure “(2002)” the figures “(2003)” shall be substituted;
- (ii) in the Schedule, against serial number 1, in column 2, for the figures “(2002)”, the figures “(2003)” shall be substituted.

[F. No. I-45028/33/94-Pers. III]

MANOJ AGGARWAL, Director (Personnel)

Foot note—The principle rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Section (i) vide GSR 76, dated the 5th February, 2003.

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2005

सा.का.नि. 41.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राइफलस, असम राइफलस प्रशिक्षण केन्द्र और विद्यालय (ज्येष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफलस प्रशिक्षण केन्द्र और विद्यालय (ज्येष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. असम राइफलस, असम राइफलस प्रशिक्षण केन्द्र और विद्यालय (ज्येष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2002 में :—

- (i) नियम (1) के उपनियम (1) में “असम राइफलस, असम राइफलस प्रशिक्षण केन्द्र और विद्यालय (ज्येष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2002” के स्थान पर “असम राइफलस प्रशिक्षण केन्द्र और विद्यालय (ज्येष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2003” रखा जाएगा।
- (ii) अनुसूची में, ज्येष्ठ लेखा अधिकारी पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने, ‘पदों की संख्या’ से संबंधित स्तंभ 2 के अधीन, “(2002)” कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “(2003)” कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. आई-45028/33/94-कार्मिक-III]

मनोज अग्रवाल, निदेशक (कार्मिक)

पाद टिप्पण—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 77 तारीख 5 फरवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 31st January, 2005

G.S.R. 41.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Assam Rifles Training Centre and School (Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 2002, namely:—

1. (1) The rules may be called the Assam Rifles Training Centre and School (Senior Accounts Officer) Recruitment (Amendment) rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Assam Rifles Training Centre and School (Senior Accounts Officer) Recruitment Rules, 2002,—

- (i) in rule (1), for sub rule (1), for the figure “(2002)” the figure “(2003)” shall be substituted;
- (ii) in the Schedule, against serial number 1, in column 2, for the figures “(2002)”, the figures “(2003)” shall be substituted.

[F. No. I-45028/33/94-Pers. III]

MANOJ AGGARWAL, Director (Personnel)

Foot note—The principle rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Section (i) vide GSR 77, dated the 5th February, 2003.

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2005

सा.का.नि. 42.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राइफल्स, रेंज मुख्यालय (कनिष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स, रेंज मुख्यालय (कनिष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. असम राइफल्स रेंज मुख्यालय (कनिष्ठ लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2002 में:—

- (i) नियम (1) के उपनियम (1) में “(2002)” अंकों के स्थान पर “(2003)” अंक रखे जाएंगे।
- (ii) अनुसूची में, कनिष्ठ लेखा अधिकारी (रेंज मुख्यालय असम राइफल्स) पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने, ‘पदों की संख्या’ से संबंधित स्तंभ 2 के अधीन,— “(2002)” कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “(2003)” कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. आई-45028/33/94-कार्मिक-III]

मनोज अग्रवाल, निदेशक (कार्मिक)

पाद टिप्पण—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 78 तारीख 5 फरवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 31st January, 2005

G.S.R. 42.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Assam Rifles Range Headquarters (Junior Accounts Officer) Recruitment Rules, 2002, namely:—

1. (1) The rules may be called the Assam Rifles Range Headquarters (Junior Accounts Officer) Recruitment (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Assam Rifles Range Headquarters (Junior Accounts Officer) Recruitment Rules, 2002,—

- (i) in rule (1), for sub rule (1), for the figure “(2002)” the figure “(2003)” shall be substituted;
- (ii) in the Schedule, against serial number 1, in column 2, for the figures “(2002)”, the figures “(2003)” shall be substituted.

[F. No. I-45028/33/94-Pers. III]

MANOJ AGGARWAL, Director (Personnel)

Foot note—The principle rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Section (i) vide GSR 78, dated the 5th February, 2003.

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2005

सा.का.नि. 43.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राइफल्स, [लेखा अधिकारी, मुख्यालय महानिरीक्षक असम राइफल्स (उत्तरी)] भर्ती नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स, [लेखा अधिकारी, मुख्यालय महानिरीक्षक असम राइफल्स (उत्तरी)] भर्ती (संशोधन) नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. असम राइफल्स [लेखा अधिकारी, मुख्यालय महानिरीक्षक असम राइफल्स (उत्तरी)] भर्ती नियम, 2002 में:—

- (i) नियम (1) के उपनियम (1) में “(2002)” अंकों के स्थान पर “(2003)” अंक रखे जाएंगे।
- (ii) अनुसूची में, [लेखा अधिकारी, मुख्यालय महानिरीक्षक असम राइफल्स (उत्तरी)] पद से संबंधित क्रम संख्यांक 1 के सामने, ‘पदों की संख्या’ से संबंधित स्तंभ 2 के अधीन, “(2002)” कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “(2003)” कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. आई-45028/33/94-कार्मिक-III]

मनोज अग्रवाल, निदेशक (कार्मिक)

पाद टिप्पण—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 79 तारीख 5 फरवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi the 31st January, 2005

G.S.R. 43.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Assam Rifles [Accounts Officer Headquarters Inspector General Assam Rifles (North)] Recruitment Rules, 2002, namely:—

1. (1) The rules may be called the Assam Rifles [Accounts Officer Headquarters Inspector General Assam Rifles (North)] Recruitment (Amendment) Rules, 2005.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Assam Rifles [Accounts Officer Headquarters Inspector General Assam Rifles (North)] Recruitment Rules, 2002,—
 - (i) in rule (1), for sub-rule (1), for the figures “(2002)” the figure “(2003)” shall be substituted;
 - (ii) in the Schedule, against serial number 1, in column 2, for the figures “(2002)”, the figures “(2003)” shall be substituted.

[F. No. I-45028/33/94-Pers. III]

MANOJ AGGARWAL, Director (Personnel)

Foot note—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide GSR 79, dated the 5th February, 2003.

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2005

सा.का.नि. 44.—राष्ट्रपति एतद्वारा, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाक विभाग (समूह 'घ' पद) भर्ती नियमावली, 2002 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को डाक विभाग (समूह 'घ' पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 2005 है।

- (2) सरकारों राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. डाक विभाग (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2002 की अनुसूची में:—

- (i) सर्किल एवं प्रशासनिक कार्यालयों के पदों से संबंधित भाग 1 में क्रम संख्या 1 के कालम-1 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों में निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:—

“1. अर्दली/चपरासी/डाक चपरासी (विदेश डाकघर)”

- (ii) अधीनस्थ कार्यालयों के पदों से संबंधित भाग-II में, क्रम संख्या 1 के कालम संख्या-1 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों में, निम्नलिखित क्रम संख्या एवं प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा यथा:—

“1. चपरासी/पत्र-पेटी चपरासी/डाक चपरासी/मेलमैन/रनर/वैन चपरासी/अर्दली/गेटमैन/अटेडेंट-एवं-खानसामा/मेल मोटर सेवा में क्लीनर/पंपमैन”

[फा. सं. 37-45/2004-एसपीबी-I]

आर. श्रीनिवासन, सहायक महानिदेशक (एसपीएन)

टिप्पणी—मूल नियम दिनांक 23 जनवरी, 2002 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 58(अ) द्वारा भारत के राजपत्र के भाग-II खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

New Delhi, the 24th January, 2005

G.S.R. 44.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Posts (Group 'D' Posts) Recruitment Rules, 2002, namely:—

1. (1) These rules may be called the Department of Posts (Group 'D' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Posts (Group 'D' Posts) Recruitment Rules, 2002,—

23392/05-2

- (i) In Part-I relating to post of Circle and Administrative Offices, in column 1 for the Sl. No. 1 and entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely :

"1. Orderlies/Peons/Mail Peons (Foreign Post Offices)"

- (ii) In Part-II relating to post of Sub-ordinate Offices, in column 1 for the Sl. No. 1 and entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely :

"1. Peons/Letter Box Peons/Mail Peons/Mailman/Runner/Van Peon/Orderly/Gatekeeper/Attendant-cum-Khansama/Cleaner in Mail Motor Service/Pumpmen".

[F. No. 37-45/2004-SPB-I]

R. SRINIVASAN, Assistant Director General (SPN)

Note—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Section (i) vide Notification No. GSR 58(E), dated the 23rd January, 2002.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2005

सा.का.नि. 45 .—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण अभिकरण (भर्ती) नियम, 1980 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्यात निरीक्षण अभिकरण (भर्ती) संशोधन नियम, 2005 है।

- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्यात निरीक्षण अभिकरण (भर्ती) नियम, 1980 की अनुसूची में उपनिदेशक (तकनीकी) और उपनिदेशक (अतकनीकी) पदों से संबंधित क्रम संख्या 6 और 7 के सामने स्तंभ (9) में, 'प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण' शीर्ष के अधीन वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/परिषद्/अधिकरणों/अर्द्धमरकारी/स्वशासी निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी :

- (i) जो सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने 8000—13500 रुपये के या समतुल्य वेतनमान में पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या

- (iii) जिन्होंने 6500—10500 रुपये के या समतुल्य वेतनमान पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है।"

[फा. सं. 3/32/2004-ई आई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

टिप्पण—मूल नियम भारत के राजपत्र में सांकांनि० 794, तारीख 2 अगस्त, 1980 के तहत प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन सांकांनि० 396, तारीख 23 जून, 1990 द्वारा किया गया है।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

New Delhi the 24th January, 2005

G.S.R. 45.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export Inspection Agency (Recruitment) Rules, 1980, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export Inspection Agency (Recruitment) Amendment Rules, 2005.

- (2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Export Inspection Agency (Recruitment) Rules, 1980, against Serial numbers 6 and 7 relating to the posts of Deputy Director (Technical) and Deputy Director (Non-Technical) in column (9), for the existing entries under heading 'Transfer on Deputation', the following entries shall respectively be substituted, namely :—

"Transfer on Deputation:

Officers under the Central Government/State Government/Council/Agencies/Semi Government/Autonomous Bodies.

- (i) holding analogous posts; or
(ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 8000—13500 or equivalent; or
(iii) with 8 years regular service in posts in the scale of Rs. 6500—10500 or equivalent;

[F. No. 3/32/2004- EI&EP]

RAJ SINGH, Director

Note—The principal rules were published in the Gazette of India, vide number GSR 794 dated 2nd August, 1980 and last amended vide number GSR 396 dated the 23rd June, 1990.

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(भारत मौसम विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2005

सा.का.नि० 46.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (हिंदी अधिकारी) भर्ती नियमों, 1974 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में ज्येष्ठ हिंदी अधिकारी (समूह "क" राजपत्रित) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ज्येष्ठ हिंदी अधिकारी, (समूह "क" राजपत्रित) के पद पर भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ज्येष्ठ हिंदी अधिकारी	01* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित	8000-275-13500 रु.	चयन पद
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

की की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति
या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न
व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

(11)

प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/
प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(12)

प्रोन्नति : ऐसे हिन्दी अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्षों से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों के अधीन ऐसे अधिकारी जो :—

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हैं; या

(ii) मूल काडर या विभाग में जिन्होंने 6500-10500 रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् इस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; या

(iii) मूल काडर या विभाग में 5500-9000 रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् इस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की गई है; और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :—

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री या समतुल्य

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी विषयों के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य

या

(ii) हिन्दी में अध्यापन, अनुसंधान, लेखन या पत्रकारिता का पांच वर्ष का अनुभव

या

(12)

हिन्दी में शब्दावली कार्य का और/या अंग्रेजी से हिन्दी में अथवा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का पांच वर्ष का अनुभव, जिसमें तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को अधिमानता दी जाएगी।

वांछनीय :

- (i) संस्कृत और/या किसी एक आधुनिक भारतीय भाषा का ज्ञान।
- (ii) प्रशासनिक अनुभव।
- (iii) टिप्पण और प्रारूपण के लिए हिन्दी कक्षाएँ या कार्यशालाएँ चलाने का अनुभव।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :

- | | |
|--|----------|
| 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग | —अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | —सदस्य |
| 3. महानिदेशक, मौसम विभाग | —सदस्य |
| 4. अपर महानिदेशक, मौसम विज्ञान/उप महानिदेशक, मौसम विज्ञान, भारत मौसम विज्ञान विभाग | —सदस्य |

प्रत्येक अवसर पर पद पर नियुक्ति करते समय और इन नियमों के किसी उपबंध को संशोधित/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. ए-12052/एच. ओ. (ग्रेड ए)/1/98-ई-1]

ए. के. भटनागर, मौसम विभाग के उप महानिदेशक (प्रशासन और भंडार)

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(India Meteorological Department)

New Delhi, the 24th January, 2005

G.S.R. 46.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution and in supersession of the India Meteorological Department (Hindi Officer) Recruitment Rules, 1974, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Hindi Officer (Group 'A' Gazetted) in the India Meteorological Department under the Ministry of Science and Technology, namely :—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the India Meteorological Department Senior Hindi Officer (Group 'A' Gazetted) Recruitment Rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, its classification and scale of pay attached thereto, shall be as specified in Columns 2 to 4 of the said Schedule annexed to these rules.

233 GE/05-3

3. **Method of Recruitment, age limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment, to the said post, age limit, qualifications and other matters connected thereto shall be as specified in Columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with, the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	7
1. Senior Hindi Officer	1*(2004) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 8000-275 13500	Selection post	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percent age of posts to be filled by various methods	
8		9		10	11	
Not applicable		Not applicable		Two years for Promotees	Promotion failing which by Deputation	
In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made				If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	
12				13	14	
Promotion :—Hindi Officer with 5 years regular service in the grade : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying /eligibility				1. Group 'A' Departmental Consultation with the Committee for considering Union Public Service Note promotion : Commission is necessary (1) Chairman/Member of Union for appointment to the Public Service Commission post on each occasion —Chairman and for amending/service by more than half of		

12	13	14
<p>such qualifying/eligibility or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p>	<p>(2) Joint Secretary, Department of Science and Technology—Member (3) Director General of Meteorology —Member (4) Additional director General of Meteorology/Deputy Director General of Meteorology, India Meteorological Department —Member</p>	<p>relaxing any provision of these rules.</p>
<p>Deputation :— I. Officers under the Central/State Governments : (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department ; Or (ii) with 5 years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre/department ; Or (iii) with 8 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre/department ; and (b) possessing the following educational qualifications and experience :—</p>		
<p>Essential : (i) Master's degree of a recognized University or equivalent in Hindi with English as a subject at the degree level</p>		
Or		
<p>Master's degree of a recognized University or equivalent in English with Hindi as a subject at the degree level</p>		
Or		
<p>Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject with Hindi and English as subjects at the degree level</p>		
Or		
<p>Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject with Hindi medium and English as a subject at the degree level</p>		
Or		
<p>Master's degree of a recognized University or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at the degree level</p>		
<p>(ii) Five years' experience of Teaching, Research, Writing or Journalism in Hindi ;</p>		
Or		
<p>Five years' experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi or vice-versa preferably of technical or scientific literature.</p>		

Desirable :

- (i) Knowledge of Sanskrit and/or a modern Indian language;
- (ii) Administrative experience ;
- (iii) Experience of organizing Hindi classes or work-shops for noting and drafting.

The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be considered for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

[No. A-12052/H.O. (Gr. A)/1/98-E-I]

A. K. BHATNAGAR, Dy. Director General of Meteorology
(Administration & Stores)

मुद्रण निदेशालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2005

सांका०नि० 47.—इस निदेशालय की अधिसूचना सं. 22/4/2003-ए. आई. तारीख 19 दिसम्बर, 2003 में, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 20 दिसम्बर, 2003 में सा.का.नि. 456 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, मुद्रण निदेशालय, भारत सरकार मुद्रणालय और शाखाएं (समूह 'ग' और 'घ' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2003 से संबंधित है, निम्नलिखित पाद-टिप्पण जोड़ा जाएगा :-

“पाद-टिप्पण—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 5 जुलाई, 2003 में, सा.का.नि. 247 तारीख 4 जुलाई, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।”

[फा. सं. 22/5/2003-ए.आई.]

बी.बी. सिंह, अपर निदेशक (प्रशा.)

DIRECTORATE OF PRINTING

CORRIGENDUM

New Delhi, the 31st January, 2005

G.S.R. 47.—In this Directorate's Notification No. 22/4/2003-A.I. dated the 19th December, 2003 vide number G.S.R. 456, published in the Gazette of India Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 20th December, 2003, relating to the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation, Directorate of Printing, Government of India Presses and Branches (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2003, the following footnote may be added :—

“Foot Note:—The principal rules were issued dated the 4th July, 2003 vide number G.S.R. 247, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 5th July, 2003.”

[F. No. 22/5/2003-A.I.]

B.B. SINGH, Addl. Director (Admn.)